

2018

FIBER OPTICS ENGINEERING

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70]

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) प्रकाशीय तंतु संचार में सांख्यिकी द्वारक को परिभाषित कीजिए।

Define Numerical Aperture in optical fibre communication

- (ii) क्रमिक सूचकांक प्रकाशीय तंतु के कोई दो गुण बताइए।

Give any two properties of Graded Index Optical fibre.

- (iii) पॉइंटिंग प्रमेय बताइए।

State Poynting theorem.

- (iv) V-अंक क्या है ? संक्षेप में समझाइए।

What is V-number ? Explain briefly.

- (v) प्रकाशीय संचार के दो लाभ लिखिए।

Write two advantages of optical communication.

(2×5)

2. (i) प्रकाशीय तंतु निर्माण की संशोधित रसायन वाष्प कला विधि को समझाइए।

Explain the process of modified chemical vapour deposition for optical fibre fabrication.

- (ii) पद सूचकांक तंतु के संदर्भ में विलम्ब विरूपण एवं मोड कट-ऑफ की शर्तों को समझाइये।

Explain delay distortion and mode cut-off conditions with respect to step index fibre.

(6×2)

3. (i) निम्न को संक्षेप में समझाइए :
 Explain the following in brief :
- (a) बंकन हानियाँ
 Bending losses
 - (b) तंतु की ऊष्ण प्रकृति
 Thermal characteristics of fibre
- (3+3)
- (ii) प्रकाशीय तंतु में संकेत विरूपण को विस्तार से समझाइए।
 Explain in detail signal distortion in optical fibre.
- (6)
4. (i) अंकीय प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र का खण्ड आरेख बनाइए एवं समझाइए।
 Draw and explain block diagram of digital optical fibre communication system.
- (2+4)
- (ii) प्रकाशीय तंतु हेतु पदार्थों के चयन की विवेचना कीजिये।
 Discuss the material consideration for optical fibres.
- (6)
5. (i) प्रकाशीय संचार के सिद्धान्त को समझाइये।
 Explain the principle of optical communication.
- (ii) विभिन्न प्रकार के योजक को संक्षेप में समझाइये।
 Explain briefly, different types of connectors.
- (6×2)
6. (i) प्रकाशीय संचार में विभिन्न संचरण हानियों को समझाइये।
 Explain different transmission losses in optical communication.
- (ii) स्लाइसिंग क्या है ? समझाइए।
 What is Splicing ? Explain.
- (6×2)
7. (i) प्रकाशीय तंतु के विभिन्न प्रकार के युग्मकों को संक्षेप में समझाइए।
 Explain in brief different types of optical fibre couplers.
- (ii) प्रकाशीय तंतु में इंटर-मोडल विरूपण क्या है ? समझाइए।
 What is Intermodel distortions in optical fibres ? Explain.
- (6×2)
8. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (कोई दो)
 Write short note on (any two)
- (i) कला एवं समूह वेग
 Phase and group velocity
 - (ii) क्रमिक सूचकांक प्रकाशीय तंतु
 Graded index optical fibre
 - (iii) प्रकाशीय तंतु की सीमाएँ
 Limitations of optical fibre.
- (6×2)